

**National Human Rights Commission**  
**Manav Adhikar Bhawan Block-C, GPO Complex, INA,, DELHI -110023**

Lenin Raghuvanshi,  
 SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi VARANASI , UTTAR PRADESH  
**Dated: 02/09/2019**

Dear Lenin Raghuvanshi,

The Commission has received your complaint and it has assigned diary number as **10501/IN/2019** with the following details:-

**Complainant Details**

<b>Name:</b>	Lenin Raghuvanshi		
<b>Mobile:</b>	9935599331	<b>Email:</b>	pvchr.india@gmail.com
<b>Address:</b>	SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi		
<b>District:</b>	VARANASI	<b>State:</b>	UTTAR PRADESH

**Victim Details**

<b>Victim Name:</b>	Pawan Jaiswal	<b>Gender:</b>	Male
<b>Religion:</b>	Hindu	<b>Cast:</b>	Unknown
<b>Address:</b>	Mirzapur231307		
<b>District:</b>	MIRZAPUR	<b>State:</b>	UTTAR PRADESH

**Incident Details**

<b>Incident Place:</b>	Siyuer village Mirzapur	<b>Incident Date:</b>	02/09/2019
<b>Incident Category:</b>	ATROCITIES ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS		
<b>Incident District:</b>	MIRZAPUR	<b>Incident State:</b>	UTTAR PRADESH

Is it filed before any Court / State HRC	No
--	----

<b>Incident Details:</b>	<p>Dear Sir, I want to bring in your kind attention towards the news published in the Print on 2 September, 2019 regarding मिड डे मील में नमक-रोटी परोसे जाने का खुलासा करने वाले पत्रकार पर यूपी में हुआ मुकदमा <a href="https://hindi.theprint.in/india/case-against-the-journalist-who-covered-the-salt-bread-case-in-the-mid-day-meal-in-up/82872/">https://hindi.theprint.in/india/case-against-the-journalist-who-covered-the-salt-bread-case-in-the-mid-day-meal-in-up/82872/</a> Therefore it is a kind request please take appropriate action at earliest. Thanking You Sincerely Yours Lenin Raghuvanshi Convenor Peoples' Vigilance Committee on Human Rights मिड डे मील में नमक-रोटी परोसे जाने का खुलासा करने वाले पत्रकार पर यूपी में हुआ मुकदमा मिर्जापुर जिले के विकास खंड जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय शिउर में हुए रोटी-नमक कांड में खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर पत्रकार व ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि पर धारा 120-बी, 186,193 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. प्रशांत श्रीवास्तव Updated: 2 September, 2019 9:31 am IST मिड डे मील खाते हुए प्राइमरी स्कूल के बच्चे । फोटो साभार : सोशल मीडिया Text Size: A- A+ मिर्जापुर : पिछले दिनों मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल का वीडियो बहुत वायरल हुआ था. जिसमें बच्चों को मिड डे मील में नमक- रोटी परोसा जा रहा था. अब इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया है. दरअसल प्रकरण को कवर करने वाले एक स्थानीय अखबार के पत्रकार पवन जायसवाल पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. मिर्जापुर ज़िले के विकास खंड जमालपुर के प्राथमिक विद्यालय शिउर में हुए रोटी-नमक कांड में खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर पत्रकार व ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि पर धारा 120-बी, 186,193 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इन पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, साझा साजिश व फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया है. एफआईआर की कॉपी ज़िले के आला अधिकारियों ने कई बार शिउर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच कर बच्चों, ग्रामीणों सहित दुकानदारों और रसोइयों से कई बार बयान लिया. अब</p>
--------------------------	---

मामले ने नया मोड़ ले लिया है. डीएम अनुराग पटेल के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम शंकर राम द्वारा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया गया है कि रोटी-नमक प्रकरण में जान बूझकर, प्रायोजित तरीके से छलपूर्वक, वीडियो बनाकर वायरल करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई. पूरे मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार पाल द्वारा षड्यंत्र रचकर एक पत्रकार की मदद से वीडियो बनवाने और उसे वायरल कराया गया है. थानाध्यक्ष राजेश चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है. पिछले दिनों वायरल हुआ था वीडियो पिछले दिनों मिर्जापुर जिले से यह मामला सामने आया था, जहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Marya Shakil ✓ @maryashakil Let's hang our heads in shame! Children at a primary school in Mirzapur served 'namak-roti' in mid-day meal. DM orders probe A teacher has been suspended Embedded video 2,688 11:04 AM - Aug 23, 2019 Twitter Ads info and privacy 1,909 people are talking about this Piyush Rai @Benarasiyaa Primary school students in Mirzapur's Siyuer village in UP being served chapattis and salt as a part of their free mid-day meal offered at govt run schools across the state. Video credit: @Brijendramzp Embedded video 937 7:51 PM - Aug 22, 2019 Twitter Ads info and privacy 1,244 people are talking about this बता दें कि यूपी के सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली मिड डे मील में हर दिन का अलग मेन्यू होता है. जिसमें रोटी, दाल, चावल आदि रहता है. वहीं हफ्ते में एक दिन खीर और एक दिन फल भी रहता है. लेकिन मिर्जापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल के वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे नमक-रोटी खाने को मजबूर हैं. एक महिला बाल्टी में रोटी लेकर बच्चों को परोस रही है. इसके बाद बच्चों को नमक दिया जा रहा है. ये स्कूल मिर्जापुर के जमालपुर खंड में स्थित है. यह भी पढ़ें : 'मिड डे मील' में पौष्टिक आहार नहीं बच्चों को खिलाई नमक-रोटी, प्रधानाध्यापक निलंबित वीडियो वायरल होने की सूचना के बाद बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) प्रवीण कुमार तिवारी ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही सहायक अध्यापिका का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया. बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय सिउर की शिक्षामित्र को भी इस मामले में दोषी पाते हुए उसका मानदेय भी रोक दिया. खंड शिक्षाधिकारी जमालपुर को भी बराबर का दोषी मानते हुए उनसे तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया. अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है.